

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16—अगस्त 22, 2014 (श्रावण 25, 1936)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16—AUGUST 22, 2014 (SRAVANA 25, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 31 जुलाई 2014

सं. ई-11012/01/2013-प्रशासन-2—राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 15/95/2013-रा.भा. (सेवा) दिनांक 01/07/2014 के तहत नामांकन के आधार पर सचिव महोदय, संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा श्रीमति अंशु गुप्ता को दिनांक 14/07/2014 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष या उपरोक्त पद पर नियमित अधिकारी की नियुक्ति होने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय के केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में तदर्थ पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) [वेतन बैंड-3 (रु. 15600—39100/-) एवं ग्रेड वेतन रु. 5400/-] के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुरेश कुमार नायक
अवर सचिव (प्रशासन-2)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली - 110003, दिनांक 23 जुलाई 2014

सं. ओ.दो.3858/10-कार्मिक(चिकित्सा)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. तारिक हुसैन, चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट), ईरला-8491, 161 बटालियन, के.रि.पु.बल द्वारा दिनांक 30/06/2014(अपराह्न) को अपना

चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, उक्त अधिकारी का नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 30/06/2014 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.3977/2014-कार्मिक(चि.अ.)—राष्ट्रपति, डॉ० परचाके नितेश नानाजी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमांडेन्ट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 10.07.2014(पूर्वाह्न), अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 23 जुलाई 2014

सं. ए-17011/31(ए-10)/2013-प्रशा.-I—इस निदेशालय के श्री असीत कुमार नाथ, सहायक निदेशक (बीजलेख), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30-06-2014 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वेणु कुमार के. एम.
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
एवम् कार्यालयाध्यक्ष

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171 004, दिनांक 31 जुलाई 2014

संख्या:5/1/2014.सी.पी.आई.--जून, 2014 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 2 अंक बढ़ कर 246 (दो सौ छियालीस) अंकों के स्तर पर रहा।

एस. एस. नेगी
निदेशक

संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

बेलकाता-700016, दिनांक 1 अगस्त 2014

सं. 4-378/2014/स्था.—निदेशक भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, मैसूर में संलग्न डा. गौतम कुमार बेरा, अनुसंधान सहयोगी (सांस्कृतिक) को सहायक मानवविज्ञानी (सांस्कृतिक), ग्रुप-बी (राजपत्रित) वेतनमान रु. 6500-200-10500/- (पूर्व संशोधित) तदनु रूप पे बैंड पीबी-2 (9300-34800) (संशोधित) ग्रेड पे-रु. 4600 के पद पर उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय केन्द्र, शिलांग में पूर्वाह्न 07 जुलाई, 2014 से तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

डी. एन. पाण्डेय
कार्यालय अध्यक्ष

सं० 4-377/2014/स्था०—निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के राँची फिल्ड स्टेशन, राँची में संलग्न श्री बानेश्वर ओरावँ, अनुसंधान सहयोगी (सांस्कृतिक) को सहायक मानवविज्ञानी (सांस्कृतिक), ग्रुप-बी (राजपत्रित) वेतनमान रु० 6500-200-10500/- (पूर्व संशोधित) तदनु रूप पे बैंड पीबी-2(9300-34800)(संशोधित) ग्रेड पे - रु० 4600 के पद पर उत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर में पूर्वाह्न 08 जुलाई, 2014 से तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

डी.एन. पाण्डेय
कार्यालय अध्यक्ष

परमाणु ऊर्जा विभाग

(परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय)

हैदराबाद-500016, दिनांक 25 जुलाई 2014

संख्या. पखनि-16/1/95-भर्ती /Vol. IV/1058—निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री मनोज जी. पिल्लै, सहायक (पीबी-2: रु. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन रु. 4600), निर्माण, सेवाएं एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय, मुंबई को आस्थाई हैसियत में दिनांक 07.07.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली में स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी (पीबी-2: रु. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन रु. 4800) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए.एस. लक्ष्मण राव
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

अहमदाबाद-388013, दिनांक 4 अगस्त 2014

सं. कर/गुज./560(5)/एफटीई/2014-15/2562--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम.नं.	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1	2	3
1	यु45202जीजे2007पीटीसी049960	एस पी डेवलपर्स लि.
2	यु51900जीजे2011पीटीसी063647	किशन वेन्चर्स प्रा. लि.
3	यु17120जीजे2008पीटीसी052619	एन. जे. वेवटेक्ष प्रा. लि.
4	यु29200जीजे2011पीटीसी068030	केपी लोक एण्ड सीक्युरिटीज प्रा. लि.
5	यु45201जीजे2005पीटीसी045368	प्रिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
6	यु45201जीजे2010पीटीसी060305	बालाजी कोन्प्रो प्रा. लि.
7	यु14290जीजे2008पीटीसी052524	आशापुरा मीनरल कल्कीनेशन प्रा. लि.
8	यु72200जीजे2001पीटीसी039477	ट्रेकव्हीकल डोट कोम (इन्डीया) प्रा. लि.
9	यु36931जीजे1996पीटीसी031088	एक्पो इन्डीया मेटल्स प्रा. लि.

1	2	3
10	यु51909जीजे2010पीटीसी060818	ओस्चीन ट्रेडिंग प्रा. लि.
11	यु45200जीजे2011पीटीसी068067	ज्योति इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
12	यु27203जीजे2007पीटीसी051703	आलकेम एल्युमीना प्रा. लि.
13	यु74140जीजे2012पीटीसी070972	बीजनेस मेट्रीक्ष कन्सल्टन्ट्स प्रा. लि.
14	यु26941जीजे2009पीटीसी057912	डी & डी सीमेन्ट प्रा. लि.
15	यु72200जीजे2000पीटीसी038167	इश इन्फोटेक प्रा. लि.
16	यु92100जीजे2009पीटीसी055800	आस्था प्रोडक्शन्स प्रा. लि.
17	यु92100जीजे2008पीटीसी055797	आस्था सिनेप्लेक्ष प्रा. लि.
18	यु40106जीजे2010पीटीसी063366	संकल्प इलेक्ट्रीसीटी प्रा. लि.
19	यु45400जीजे2006पीटीसी049597	सदानंद डेवलपर्स प्रा. लि.
20	यु24100जीजे1986पीटीसी008541	राना एगोकेम प्रा. लि.
21	यु28123जीजे2011पीटीसी064653	डीलक्ष रेडीएटर्स प्रा. लि.
22	यु61100जीजे1998पीटीसी033902	मीथीला ट्रेडलीक्स प्रा. लि.
23	यु17110जीजे1990पीटीसी013597	राजस्थान पोलीटेक्ष लि.
24	यु72900जीजे2009पीटीसी057068	इमेजीन इन्टरप्राइसीस (इन्डीया) प्रा. लि.
25	यु24231जीजे1989पीटीसी012965	कारवान फार्मा केम प्रा. लि.
26	यु24110जीजे2008पीटीसी054190	इन्डीकेम ट्रेडिंग प्रा. लि.
27	यु35117जीजे1995पीटीसी026802	अक्षर मल्टीफोर्मस प्रा. लि.
28	यु21000जीजे2011पीटीसी067081	इन्फीनीयम पेपर प्रा. लि.
29	यु26933जीजे2009पीटीसी058665	अंजनी केलकीनेशन प्रा. लि.
30	यु45201जीजे2008पीटीसी054133	देवशक्ति रीयालीटी प्रा. लि.
31	यु17120जीजे1990पीटीसी014765	यशु टेक्टाईल्स प्रा. लि.
32	यु63090जीजे2010पीटीसी062685	राधे हरी कार्गो प्रा. लि.
33	यु24230जीजे2011पीटीसी063817	मुंद्रा हेल्थ केर प्रा. लि.
34	यु92410जीजे2007पीटीसी051613	पीयस क्लब प्रा. लि.
35	यु63090जीजे2011पीटीसी065954	ड्रीम कार्गो प्रा. लि.
36	यु25209जीजे1990पीटीसी014299	गुजरात पोलीट्रेडनर प्रा. लि.
37	यु24200जीजे2010पीटीसी062360	अंग केमटेक प्रा. लि.
38	यु34105जीजे2007पीटीसी050254	लीसी ओटोमोटीव इन्डीया प्रा. लि.
39	यु65910जीजे1982पीटीसी005518	डी के इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
40	यु34101जीजे1990पीटीसी014066	वेस्टर्न अर्थ मुवर्स प्रा. लि.
41	यु25200जीजे2005पीटीसी047201	ब्राइट इपीएस प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

1	2	3
42	यु29119जीजे1997पीटीसी031711	वोटीव इन्जीनीयरींग प्रा. लि.
43	यु72200जीजे2006पीटीसी047745	मेक्रोटेक टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
44	यु24100जीजे2013पीटीसी073637	विनित मेचवर्क्स प्रा. लि.
45	यु99999जीजे1995पीटीसी051500	ओसीयन ट्रान्सफोमर्स प्रा. लि.
46	यु51909जीजे1993पीटीसी019925	हेरीस एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
47	यु17120जीजे2010पीटीसी059879	के पी सील्क फेब प्रा. लि.
48	यु24100जीजे2010पीटीसी059530	पेट्रीआर्क केम प्रा. लि.
49	यु33110जीजे2009पीटीसी056142	सांभवी मेडीकेर प्रा. लि.
50	यु73100जीजे2011पीटीसी067474	शर्मा ओर्थोपेडीक रिसर्च फाउन्डेशन प्रा. लि.
51	यु33110जीजे2009पीटीसी056212	एसएसइपीएल सर्जिकर प्रा. लि.
52	यु33110जीजे2011पीटीसी066935	स्ट्रेयजेन मेडीकेर & सर्जिकर प्रा. लि.
53	यु33110जीजे2011पीटीसी067304	शर्मा & सन्स सर्जिकर प्रा. लि.
54	यु25209जीजे1988पीटीसी011336	तीरूपति प्लास्टीक्स प्रा. लि.
55	यु72200जीजे2012पीटीसी071497	स्कीटजल इन्फोटेक प्रा. लि.
56	यु28999जीजे2010पीटीसी062835	इन्फीनाईट फलेक्षीबल्स प्रा. लि.
57	यु94140जीजे1997पीटीसी031428	गेप कोर्पोरेट सर्वीसीस प्रा. लि.
58	यु67120जीजे2007पीटीसी051960	मनी ट्री फाइनान्सीयल सोल्युसन्स प्रा. लि.
59	यु01111जीजे2011पीटीसी063705	अवीरत एग्रीटेक प्रा. लि.
60	यु15543जीजे2011पीटीसी067767	रेवा नीर प्रा. लि.
61	यु67200जीजे2007पीटीसी051756	केर प्लस ब्रोकींग सर्वीसीस प्रा. लि.
62	यु45209जीजे2009पीटीसी055827	महुवा पोर्ट & इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
63	यु23100जीजे2005पीटीसी047089	डबल्युटुडबल्यु ओइलटेक प्रा. लि.
64	यु52100जीजे2008पीटीसी054035	वी फोर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
65	यु26942जीजे2001पीटीसी039924	टोपाज सीमेन्ट प्रा. लि.
66	यु72100जीजे2008पीटीसी055481	अस्मी इन्फोटेक प्रा. लि.
67	यु29120जीजे2001पीटीसी039542	गरीमा एन्जीनीयर्स प्रा. लि.
68	यु24233जीजे2011पीटीसी064535	सीलकोम्ब केटलीस्ट प्रा. लि.
69	यु74900जीजे2010पीटीसी059707	डी जे पपय्या एन्जीनीयरींग कन्ट्रक्शन प्रा. लि.
70	यु50101जीजे1996पीटीसी029097	चरोला एक्पोर्ट्स प्रा. लि.
71	यु36999जीजे2003पीटीसी043388	एस के ब्युटी & लेसर इक्युपमेन्ट्स प्रा. लि.
72	यु29299जीजे2008पीटीसी054882	ग्रीन बस्ती इकोसीस्टम्स प्रा. लि.
73	यु50404जीजे2010पीटीसी060016	रीनो राईडर्स प्रा. लि.

1	2	3
74	यु31402जीजे2012पीटीसी071216	देवशीस एनर्जी सोल्युसन्स प्रा. लि.
75	यु74140जीजे2008पीटीसी054087	फाईनान्सएड्ज कोर्पोरेट सर्वीसीस प्रा. लि.
76	यु67120जीजे2008पीटीसी054033	आंकाक्षा ब्रास प्रा. लि.
77	यु45201जीजे2009पीटीसी057116	श्री पी जे बील्डकोन प्रा. लि.
78	यु72200जीजे2005पीटीसी045822	डोलसेरा इन्फोमेक्ष प्रा. लि.
79	यु50300जीजे2006पीटीसी049366	अलाईड केपीटल इक्युपमेन्ट & इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
80	यु51909जीजे2001पीटीसी039985	होरजोन ट्रेडलीक प्रा. लि.
81	यु52390जीजे2013पीटीसी073387	शपत इन्फोसर्वीसीस प्रा. लि.
82	यु29254जीजे2008पीटीसी052989	रोकमेन कन्वेयर्स प्रा. लि.
83	यु21010जीजे1995पीटीसी027518	श्री रीधधी सीधधी पेपर एण्ड बोर्ड प्रा. लि.
84	यु63090जीजे2012पीटीसी068899	त्रिवेणी एक्प्रेस प्रा. लि.
85	यु45200जीजे2011पीटीसी064379	तप्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेन्ट प्रा. लि.
86	यु29268जीजे2006पीटीसी048664	युकीटेक इम्पेक्ष प्रा. लि.
87	यु63040जीजे2010पीटीसी063167	आरएनसी होलीडेय्स प्रा. लि.
88	यु64204जीजे2012पीटीसी068637	बीना कोम्युनीकेशन्स प्रा. लि.
89	यु29100जीजे2011पीटीसी067529	श्रेया इक्युपमेन्ट्स प्रा. लि.
90	यु72200जीजे2004पीटीसी043423	कलादोस सोल्युसन्स प्रा. लि.
91	यु24219जीजे2008पीटीसी055337	श्रीजी एग्रोटेक प्रा. लि.
92	यु74140जीजे2013पीटीसी074216	मित्वा एन्टरप्राईजीस प्रा. लि.
93	यु27104जीजे2002पीटीसी040814	मधुरम वायर्स प्रा. लि.
94	यु28112जीजे2001पीटीसी040162	गौरव रोलर्स प्रा. लि.
95	यु28910जीजे2012पीटीसी069082	राजनील फोरगीन्स प्रा. लि.
96	यु72200जीजे2004पीटीसी044241	बुजीप्रो इन्फोटेक प्रा. लि.
97	यु92190जीजे2008पीटीसी055576	मेरीधुन एन्टरटेईनमेन्ट प्रा. लि.
98	यु17120जीजे2013पीटीसी076584	आईडीयल सीन्थेटीक्स प्रा. लि.
99	यु25200जीजे2013पीटीसी073561	स्वर टेकनोप्लास्ट प्रा. लि.
100	यु74950जीजे1978पीटीसी003145	सुवर्ण पेकेजींग प्रा. लि.
101	यु28910जीजे2006पीटीसी048544	एरइन्टेक एन्टरप्राईज प्रा. लि.
102	यु01211जीजे2012पीटीसी071023	जीवन साथी केटल एण्ड एग्रो डेवलपमेन्ट इन्डीया लि.
103	यु67120जीजे2009पीटीसी055865	सनसाईन इन्वेस्टर्स सर्वीसीस प्रा. लि.
104	यु67120जीजे2008पीटीसी054157	सम्पन्न फीनवेस्ट प्रा. लि.
105	यु63090जीजे2011पीटीसी064285	मूनराईज सीपींग प्रा. लि.

1	2	3
106	यु67120जीजे2008पीटीसी054159	तरल फीनवेस्ट प्रा. लि.
107	यु67120जीजे2008पीटीसी054156	नेत्र इन्वेस्टर्स एण्ड सर्वीसीस प्रा. लि.
108	यु45201जीजे2008पीटीसी054185	अपोलो मेगा ओर्गेनाइजर्स प्रा. लि.
109	यु72200जीजे1999पीटीसी035710	गुर्जर सीस्टम्स प्रा. लि.
110	यु25202डीएन1997पीटीसी000122	सैयद पेकेजींग प्रा. लि.
111	यु72200जीजे2007पीटीसी050573	मेजीक इन्फोकॉम प्रा. लि.
112	यु24100जीजे2008पीटीसी055692	सत्तवाह ओर्गेनीक्स प्रा. लि.
113	यु24230जीजे2010पीटीसी061496	एसएल फार्मा प्रा. लि.
114	यु55100जीजे1989पीएलसी012422	शीबा होटल्स लि.
115	यु74140जीजे2004पीटीसी044445	माईक्रोमन बेक ऑफीस सर्वीसीस प्रा. लि.
116	यु67200जीजे2009पीएलसी057371	नवकार इन्स्योरन्स ब्रोकर्स लि.
117	यु52100जीजे2008पीटीसी053002	गीत मार्केटींग प्रा. लि.
118	यु15490जीजे2012पीटीसी070180	मुम मुम फुड्स प्रा. लि.
119	यु67120जीजे1996पीटीसी029932	ए पी शाह ऑटो फाईनान्स प्रा. लि.
120	यु92412जीजे2013पीटीसी073384	राजकोट रीक्रीएशन क्लब प्रा. लि.
121	यु01122जीजे2010पीटीसी063287	कृषि विकास एगो प्रोसेसर्स प्रा. लि.
122	यु45201जीजे2004पीटीसी044153	ताशा प्रोपर्टीज प्रा. लि.
123	यु14101जीजे1992पीटीसी018675	मोनालीसा मार्बल्स प्रा. लि.
124	यु45201जीजे2007पीटीसी050514	शैली इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि.
125	यु35117जीजे2011पीटीसी065685	अक्षी शीप ब्रेकींग प्रा. लि.
126	यु63040जीजे2009पीटीसी055808	सीन्ड्रेला ट्रावल्स प्रा. लि.
127	यु22100जीजे2011पीटीसी064955	रेन्बोव लो पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
128	यु15544जीजे1947पीटीसी000268	सुरत आईस को प्रा. लि.
129	यु45201जीजे1980पीटीसी003932	नीलीनीती कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
130	यु72900जीजे2011पीटीसी065783	आई क्यूब इन्फोसर्वीसीस प्रा. लि.
131	यु73100जीजे1990पीटीसी013500	फेरडीयल मेनेजमेन्ट सर्वीसीस प्रा. लि.
132	यु17191जीजे1996पीटीसी031370	झनकार फेब्रीक्स प्रा. लि.
133	यु28910जीजे2008पीटीसी052857	एसएलएस मेटल (इन्डिया) प्रा. लि.
134	यु72900जीजे2010पीटीसी060266	पीजीओन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.
135	यु52100जीजे2008पीटीसी052578	अधोईत एक्षीम प्रा. लि.
136	यु17115जीजे2011पीटीसी065571	बजरंग कोटस्पीन प्रा. लि.
137	यु17120जीजे2013पीटीसी074598	विष्णुजी स्पीनीन्ग मील प्रा. लि.

1	2	3
138	यु67120जीजे2008पीटीसी052945	अधोईत फाईनकोन प्रा. लि.
139	यु74140जीजे2010पीटीसी061831	क्रीएटीक्ष प्रोपर्टीज प्रा. लि.
140	यु45201जीजे2008पीएलसी054619	अवेन्चर इन्फ्राबाईल्ड लि.
141	यु45201जीजे2008पीएलसी054654	अवेन्चर वर्ल्डपार्क लि.
142	यु45201जीजे2008पीएलसी054413	अवेन्चर मल्टीपार्क लि.
143	यु72200जीजे2012पीटीसी069299	लेफ्टक्लीक टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
144	यु65910जीजे2011पीटीसी064423	स्मूथ फाईनसर्व प्रा. लि.
145	यु52100जीजे2010पीटीसी061438	नोवेल्टी एक्सपोर्ट & इम्पोर्ट प्रा. लि.
146	यु67120जीजे2010पीटीसी059850	वीनस वेल्थ क्रीएटर्स प्रा. लि.
147	यु67120जीजे2011पीटीसी064794	जीयोन सारीस & स्टोक ब्रोकर्स प्रा. लि.
148	यु72200जीजे2011पीटीसी064287	जीयोन इन्फो-कोम प्रा. लि.
149	यु30009जीजे1998पीएलसी034163	रीया टेक्नोलोजीस लि.
150	यु01403जीजे2011पीटीसी065301	इम्पोबस एग्री सोल्यसन प्रा. लि.
151	यु17297जीजे1985पीटीसी007924	अमल्को पोलीफायबर्स प्रा. लि.
152	यु17297जीजे1985पीटीसी007925	प्रियंका फाईबर्स एण्ड फीलामेन्ट्स प्रा. लि.
153	यु23209जीजे1988पीएलसी011468	लुब्स स्पेश्यलीटीज लि.
154	यु18109जीजे2009पीटीसी056719	शीन्गा सोईरीस प्रा. लि.
155	यु27100जीजे2014पीटीसी078735	देवांस मल्टीमेटल्स प्रा. लि.
156	यु74140जीजे2012पीटीसी071701	फेबर थ्री सोल्युसन्स प्रा. लि.
157	यु51909जीजे2013पीटीसी076987	पीयर्ल केनवास कम्पनी प्रा. लि.
158	यु17120जीजे2011पीटीसी065913	सोहम इनोवेटिव टेक्स्फेब प्रा. लि.
159	यु17120जीजे2011पीटीसी066073	शायारा एक्मे वेवर्स प्रा. लि.
160	यु72900जीजे2012पीटीसी069819	फुतुरा आईटी सीस्टम्स प्रा. लि.
161	यु40100जीजे2008पीटीसी054798	आरसेल ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.
162	यु40100जीजे2010पीटीसी062264	सीसोल पावर प्रा. लि.
163	यु74140जीजे2003पीटीसी043030	डोमीन कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
164	यु80903जीजे2010पीटीसी063009	इवर्नीगचाई केरीर सर्वीसीस प्रा. लि.
165	यु72200जीजे2009पीटीसी057875	सप्तरंग सोल्युसन्स प्रा. लि.
166	यु70100जीजे2009पीटीसी056050	शाह & सन्स प्रोपोन प्रा. लि.
167	यु52100जीजे2009पीटीसी055876	शाह रीयलकोम प्रा. लि.
168	यु67120जीजे2008पीटीसी054086	कोर्परेट स्टोक ब्रोकिंग प्रा. लि.
169	यु45500जीजे2008पीटीसी054286	कोर्परेट स्पेस मेनेजर्स प्रा. लि.

1	2	3
170	यु52300जीजे2009पीटीसी056082	शाह ट्रेडवींग गुजरात प्रा. लि.
171	यु70100जीजे2009पीटीसी055936	शाह स्पेस मेनेजर प्रा. लि.
172	यु15310जीजे2013पीटीसी073589	जेकेएच फुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
173	यु52512जीजे2012पीटीसी071574	स्वीट ड्रीम्स इन्डस्ट्री प्रा. लि.
174	यु36912जीजे2010पीटीसी060900	युग डायमंड्स प्रा. लि.
175	यु34100जीजे2010पीटीसी059590	वीर ओटो व्हील्स प्रा. लि.
176	यु70101जीजे2012पीटीसी070460	भावना रीयालीटीस प्रा. लि.
177	यु63020जीजे2012पीटीसी069652	मानसी एग्रीकल्चर एण्ड फुड प्रोसेसिंग प्रा. लि.
178	यु17120जीजे2012पीटीसी071079	मोनु टेक्स्तेब प्रा. लि.
179	यु24231जीजे1989पीटीसी013185	निरव लेबोरेटरीज प्रा. लि.
180	यु17119जीजे1985पीटीसी008085	ग्रीसन्थ टेक्स्टाईस प्रा. लि.
181	यु72200जीजे2013पीटीसी076159	दलाल सॉफ्टवेर प्रा. लि.
182	यु65910जीजे1995पीटीसी026994	कृति रीयालीटीज एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लि.
183	यु17121जीजे2006पीटीसी049375	ओम कोटन प्रा. लि.
184	यु01403जीजे2013पीटीसी074329	जयशील एग्रोटैक प्रा. लि.
185	यु24100जीजे2011पीटीसी063983	गुरु रेमेडीज प्रा. लि.
186	यु51494जीजे2004पीटीसी044292	कवानमाली ट्रेडिंग प्रा. लि.
187	यु74120जीजे2008पीटीसी053696	जेनीफो टेक् एण्ड एकांटींग सर्वीसीस प्रा. लि.
188	यु35117जीजे2011पीटीसी064827	भजन शीप रीसायकलींग प्रा. लि.
189	यु51909जीजे1980पीटीसी003708	माल्कान्स ट्रेडिंग प्रा. लि.
190	यु52300जीजे2011पीटीसी064800	सारथी रीटेइल्स प्रा. लि.
191	यु70102जीजे2009पीटीसी055982	जेवीजे इन्फ्रास्ट्रक्चर & सर्वीसीस प्रा. लि.
192	यु35117जीजे1995पीटीसी026527	राधे फाइनेन्स (इन्डिया) प्रा. लि.
193	यु70101जीजे2007पीटीसी052068	एआरएस रीयल एस्टेट प्रा. लि.
194	यु52393जीजे2009पीटीसी057965	रश्मीन एक्सीम प्रा. लि.
195	यु67120जीजे2009पीटीसी057962	डेल्टा वेल्थ मेनेजर्स प्रा. लि.
196	यु45201जीजे2010पीटीसी059448	मासकोट ट्रेडिंग प्रा. लि.

वी.एस.हजारे
सहायक कंपनी रजिस्टार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोयम्बतूर - 641005, दिनांक 30 जुलाई 2014

सं. आरओसी/सीबीई/560(5)/2014---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यहां निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्ट्रार आफ कम्पनीस के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रमांक	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
1	2	3
1	4308	मैसर्स कवी कुमार स्पिन्निंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	8432	मैसर्स श्री पती डयमन्ड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
3	9255	मैसर्स सिएसएक्स सेक्युरिटीस लिमिटेड
4	10476	मैसर्स एसएसबिबि एन्टरप्राइस इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
5	10603	मैसर्स डाटा पार्क इन्टिग्रेटेड बिसिनेस सोल्यूशन्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
6	14042	मैसर्स स्वानिष ज्वेलस प्राइवेट लिमिटेड
7	14244	मैसर्स अबनर केपिटल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
8	14721	मैसर्स राजश्री बयोटेक प्राइवेट लिमिटेड
9	14976	मैसर्स स्प्रेट फिनान्सियल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
10	15535	मैसर्स निवि फैशन्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
11	15707	मैसर्स केसिबा फुड प्राडक्टस प्राइवेट लिमिटेड
12	16303	मैसर्स टारा डयमन्ड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड
13	16663	मैसर्स एम.एल. गियर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	9918	मैसर्स टवी स्विपिंग लैन्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
15	10263	मैसर्स मेकमेन्स कन्स्ट्रक्सन्स प्राइवेट लिमिटेड
16	10738	मैसर्स मनोन्मनी एग्रीकल्चुरल फार्म प्राइवेट लिमिटेड
17	11974	मैसर्स एम आर एमम आडस कोयम्बतूर प्राइवेट लिमिटेड
18	11141	मैसर्स प्रैयरा एन्टरप्राइस लिमिटेड
19	12569	मैसर्स कारसिरोना प्रिकाल्टेक (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
20	12829	मैसर्स टेच्चार्च इन्फरमेसन् सिस्टमस इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
21	13333	मैसर्स रतन श्री आनन्दास चिटस प्राइवेट लिमिटेड
22	14192	मैसर्स सिपिएल चिट फन्डस (कोवै) प्राइवेट लिमिटेड
23	14376	मैसर्स आर.पि. फिनान्सियल सर्विसस इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
24	15487	मैसर्स केनन कलातस्लैन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
25	647	मैसर्स शणमुगा स्टील इन्डस्ट्रीस लिमिटेड
26	3066	मैसर्स अम्मन ग्रानैट प्राडक्टस प्राइवेट लिमिटेड
27	8319	मैसर्स श्री आन्जन्या अनुग्रहा एगो प्राडक्टस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
28	12032	मैसर्स अक्सरा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
29	13790	मैसर्स अकुडाक्स साफ्टवेयर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
30	14173	मैसर्स असिर साफ्टवेयर सोल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
31	15211	मैसर्स जस्ट फोन इन्फरमेसन सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड
32	16909	मैसर्स मुरुगप्पा वेन्टूरस प्राइवेट लिमिटेड

वी.पी.शिवादासन
कम्पनी पंजीयक (इंचार्ज)
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 18 फरवरी 2014

सं: आर ए पी / एस ई एस - 2005/धारा - 560 (3)/01-5740/वी वी आर/ फरवरी, 2009 - सूचना दी जाती है कि कम्पनी कार्य मंत्रालय के एस ईएस - 2005 आसान कलम स्कीम - 2005 दिनांक 28-01-2005 के अनुसार इस कार्यालय में आवेदन किया है। सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90 दिनों के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
01	U99999AP1985PTC005740	सधर्न फइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
02	U65992AP1993PLC015456	गोरा चिट्स एण्ड फैनान्स लिमिटेड

उक्त दर्शाए कम्पनियों को प्रस्ताव हटाने के बारे में किसी व्यक्ति विशेष से कोई आपत्ति हो तो वे इस तारीख से 3 महीनों के भीतर अपनी शिकायत लिखित रूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरी के पास प्रस्तुत करें अन्यथा प्रस्ताव के अनुसार बिना किसी सूचना के कम्पनियों के नामों को हटाया जाएगा ।

वेंकटा रामी रेडडी वंगा
सहायक कम्पनी पंजीयक
आंध्र प्रदेश

एलएलपि अधिनियम 2008 और मेसर्स डेलपरफेच ग्लोबल सरवीसस एलएलपि के बारे में ।

कोच्चि, दिनांक 25 जुलाई 2014

सं. एलएलपिन अअबि-0650 / 2334—एलएलपि नियम 2009 के नियम 37 (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेसर्स डेलपरफेच ग्लोबल सरवीसस एलएलपि का नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त एलएलपि विघटित हो गई हैं ।

वि ई जोसकुट्टी
उप कंपनी पंजीयक
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कंपनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के बारे में

कोच्चि-682021, दिनांक 16 जुलाई 2014

सं नोटिस 560 (5)/एफटिडि-2014—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	पंजीकरण नंबर	कंपनी का नाम
1	U74994KL2007PTC021332	केसिए इन्टीरियर डिसेन्स प्रैवट लिमिटेड
2	U52335KL2011PTC027615	जनकीयम सेलस एण्ड सरवीसस प्रैवट लिमिटेड
3	U65910KL1995PTC009604	रामचन्द्र फिनान्सियल सरवीसस एण्ड मेरचनट वेकिंग प्रैवट लिमिटेड
4	U80301KL2011PTC027961	विरटस एडुकेषनल सरवीसस प्रैवट लिमिटेड
5	U70100KL2012PTC030757	जेवितिसी रियल एस्टेट प्रैवट लिमिटेड
6	U51900KL2011PTC027434	विनहार एक्सपोर्टर्ज प्रैवट लिमिटेड
7	U45200KL2008PTC022986	आरटिसन बिलडर्ज कोनट्राक्टर्ज एण्ड डिवलपर्ज प्रैवट लिमिटेड
8	U93010KL2012PTC032262	संपूर्णा होम सरवीस प्रैवट लिमिटेड
9	U74140KL2010PTC025814	पेट्रोटेक ट्रेडिन्ग एण्ड कनसलटन्ट्स प्रैवट लिमिटेड
10	U55101KL2007PTC020681	येसपीसनस एन्टरप्राइस प्रैवट लिमिटेड
11	U45200KL2008PTC023305	डि वालर बिलडर्ज एण्ड डिवलपर्ज प्रैवट लिमिटेड
12	U15400KL2013PTC034589	योगोनेषन फुडज़ प्रैवट लिमिटेड
13	U51909KL2006PTC019578	जेसियल एचिम प्रैवट लिमिटेड
14	U63012KL2009PTC024305	मासट्रान्स शिपिंग एण्ड ट्रान्सपोर्ट इण्डिया प्रैवट लिमिटेड

के जी जोसफ जाक्सन
कंपनी पंजीयक
केरल

कम्पनी पंजीयक कार्यालय, केरल एवं लक्षद्वीप

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कोचिन अलयन्स बैंक लिमिटेड के बारे में

कोच्चि, दिनांक 25 जुलाई 2014

सं. U65110KL1927PLC000177/2335—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोचिन अलयन्स बैंक लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

के जी जोसफ जाक्सन
कंपनी पंजीयक
केरल एण्ड लक्षद्वीप

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 31st July 2014

No. E-11012/01/2013- Admn.II —On the basis of the nomination made by Department of Official Language vide their OM No. 15/95/2013-OL(S) dated 01/07/2014, Secretary, Union Public Service Commission hereby appoints Smt. Anshu Gupta to the post of Assistant Director (OL), in PB-3 [15600—39100/- with Grade Pay of Rs. 5400/-] in the Central Secretariat Official Language Service cadre of the UPSC on ad-hoc promotion basis w.e.f. 14/07/2014 (FN) for a period of one year or till a regular Officer is appointed in her place or till further Orders, whichever is earlier.

SURESH KUMAR NAYAK
Under Secretary (Admn.II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi – 110003, the 23rd July 2014

No. O.II.3858/10-Pers-MOs—Consequent on acceptance of his resignation by the competent authority, Dr. Tariq Hussain, Medical Officer (Asstt. Comdt.), IRLA-8491 of 161 Bn, CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 30th June, 2014. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force wef. 30.06.2014(AN).

M. C. PANWAR
DIGP(Pers)

No.O.II. 3977/2014-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Parchake Nitesh Nanaji, selected candidate of MOSB-2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs.15,600—39,100 plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 10/07/2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M.C.PANWAR
DIG(Pers)

DIRECTORATE OF COORDINATION

(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 23rd July 2014

No.A-17011/31 (A-10)/2013-Admn.I—Shri Ashit Kumar Nath, Assistant Director (Cy) of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 30-06-2014.

VENUKUMAR K.M.
Joint Director (Admn)
& Head of the Office

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

(LABOUR BUREAU)

Shimla-171 004, the 31st July 2014

No. 5/1/2014-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base:2001=100 increased by 2 points and stood at 246 (two hundred forty six) for the month of June, 2014.

S. S. NEGI
Director

MINISTRY OF CULTURE

(DEPT. OF CULTURE)

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata – 700016, the 1st August 2014

No.4-378/2014/Estt. The Director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Dr. Gautam Kumar Bera, Research Associate (Cultural) attached to the Southern Regional Centre, Mysore of this Survey to the post of Assistant

Anthropologist (Cultural), Group – B (Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- (pre-revised) corresponding pay band PB-2 (9300—34800) with Grade pay of Rs.4600/- (revised) at the North East Regional Centre, Shillong with effect from the forenoon of 07th July, 2014 until further orders.

D.N. PANDEY
Head Of Office

No.4-377/2014/Estt. The Director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri Baneshwar Oraon, Research Associate (Cultural) attached to the Ranchi Field Station, Ranchi of this Survey to the post of Assistant Anthropologist (Cultural), Group – B (Gazetted) in the scale of pay of Rs.6500-200-10500/- (pre-revised) corresponding pay band PB-2 (9300—34800) with Grade pay of Rs.4600/- (revised) at the Western Regional Centre, Udaipur with effect from the forenoon of 08th July, 2014 until further orders.

D.N. PANDEY
Head Of Office

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 25th July 2014

No.AMD-16/1/1995-Rectt/Vol.IV/1058—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri Majoj G. Pillai, Assistant, (PB-2, Rs. 9,300—34,800+Grade Pay Rs. 4600), DCS&EM, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer (PB-2, Rs. 9,300—34,800 plus Grade Pay Rs. 4,800), in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, New Delhi with effect from the forenoon of 07.07.2014 until further orders.

A.S. LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of following companies

Ahmedabad-380 013, the 4th August 2014

No. ROC/Guj/560(5)/FTE/2014-15/2562—Notice is hereby given pursuant to sub – section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :-

SR.NO.	CIN NO.	NAME OF THE COMPANY
1	2	3
1	U45202GJ2007PLC049960	ESS PEE DEVELOPERS LIMITED
2	U51900GJ2011PTC063647	KISAN VENTURES PRIVATE LIMITED
3	U17120GJ2008PTC052619	N. J. WEAUTEX PRIVATE LIMITED
4	U29200GJ2011PTC068030	KP LOCK AND SECURITY PRIVATE LIMITED
5	U45201GJ2005PTC045368	PRIYA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
6	U45201GJ2010PTC060305	BALAJI CONPRO PRIVATE LIMITED
7	U14290GJ2008PTC052524	ASHAPURA MINERAL CALCINATION PRIVATE LIMITED
8	U72200GJ2001PTC039477	TRACKVEHICLE DOT COM (INDIA) PRIVATE LIMITED
9	U36931GJ1996PTC031088	EXPO INDIA METALS PRIVATE LIMITED
10	U51909GJ2010PTC060818	AUSCHIN TRADING PRIVATE LIMITED

1	2	3
11	U45200GJ2011PTC068067	JYOTI INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
12	U27203GJ2007PTC051703	ALUCHEM ALUMINA PRIVATE LIMITED
13	U74140GJ2012PTC070972	BUSINESS MATRIX CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
14	U26941GJ2009PTC057912	D & D CEMENT PRIVATE LIMITED
15	U72200GJ2000PTC038167	ISH INFOTECH PRIVATE LIMITED
16	U92100GJ2009PTC055800	AASTHA PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
17	U92100GJ2008PTC055797	AASTHA CINEPLEX PRIVATE LIMITED
18	U40106GJ2010PTC063366	SANKALP ELECTRICITY PRIVATE LIMITED
19	U45400GJ2006PTC049597	SADANAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
20	U24100GJ1986PTC008541	RANA AGROCHEM PRIVATE LIMITED
21	U28123GJ2011PTC064653	DELUXE RADIATORS PRIVATE LIMITED
22	U61100GJ1998PTC033902	MITHILA TRADELINKS PRIVATE LIMITED
23	U17110GJ1990PLC013597	RAJASTHAN POLYTEX LIMITED
24	U72900GJ2009PTC057068	IMAGINE ENTERPRISES (INDIA) PRIVATE LIMITED
25	U24231GJ1989PTC012965	CARAVAN PHARMA CHEM PVT LTD
26	U24110GJ2008PTC054190	INDICHEM TRADING PRIVATE LIMITED
27	U35117GJ1995PTC026802	AKSHAR MULTIFORMS PRIVATE LIMITED
28	U21000GJ2011PTC067081	INFINIUM PAPER PRIVATE LIMITED
29	U26933GJ2009PTC058665	ANJANI CALCINATION PRIVATE LIMITED
30	U45201GJ2008PTC054133	DEVSHAKTI REALITY PRIVATE LIMITED
31	U17120GJ1990PTC014765	YASUI TEXTILES PVT.LTD.
32	U63090GJ2010PTC062685	RADHEY HARI CARGO PRIVATE LIMITED
33	U24230GJ2011PTC063817	MUNDRA HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
34	U92410GJ2007PTC051613	PEACE CLUB PRIVATE LIMITED
35	U63090GJ2011PTC065954	DREAM CARGO PRIVATE LIMITED
36	U25209GJ1990PTC014299	GUJARAT POLYTAINER PVT LTD
37	U24200GJ2010PTC062360	ANGH CHEMTECH PRIVATE LIMITED
38	U34105GJ2007PTC050254	LISI AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED
39	U65910GJ1982PTC005518	D K INVESTMENTS PVT LTD
40	U34101GJ1990PTC014066	WESTERN EARTH MOVERS PVT LTD
41	U25200GJ2005PTC047201	BRIGHT EPS PRODUCTS PRIVATE LIMITED
42	U29119GJ1997PTC031711	VOTIVE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
43	U72200GJ2006PTC047745	MACROTECH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
44	U24100GJ2013PTC073637	VINIT MATCHWORKS PRIVATE LIMITED
45	U99999GJ1995PTC051500	OCEAN TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED
46	U51909GJ1993PTC019925	HARRYS EXPORTS PVT LTD
47	U17120GJ2010PTC059879	K P SILK FAB PRIVATE LIMITED
48	U24100GJ2010PTC059530	PATRIARK CHEM PRIVATE LIMITED
49	U33110GJ2009PTC056142	SHAMBHAVI MEDICARE PRIVATE LIMITED

1	2	3
50	U73100GJ2011PTC067474	SHARMA ORTHOPAEDIC RESEARCH FOUNDATION PRIVATE LIMITED
51	U33110GJ2009PTC056212	SSEPL SURGICARE PRIVATE LIMITED
52	U33110GJ2011PTC066935	STRYGEN MEDICARE & SURGICARE PRIVATE LIMITED
53	U33110GJ2011PTC067304	SHARMA & SONS SURGICARE PRIVATE LIMITED
54	U25209GJ1988PTC011336	TIRUPATI PLASTICS PVT LTD
55	U72200GJ2012PTC071497	SKIDZLE INFOTECH PRIVATE LIMITED
56	U28999GJ2010PTC062835	INFINITE FLEXIBLES PRIVATE LIMITED
57	U94140GJ1997PLC031428	GAP CORPORATE SERVICES LIMITED
58	U67120GJ2007PTC051960	MONEY TREE FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
59	U01111GJ2011PTC063705	AVIRAT AGRITECH PRIVATE LIMITED
60	U15543GJ2011PTC067767	REVA NEER PRIVATE LIMITED
61	U67200GJ2007PTC051756	CARE PLUS BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED
62	U45209GJ2009PTC055827	MAHUVA PORT AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
63	U23100GJ2005PTC047089	W2W OILTECH PRIVATE LIMITED
64	U52100GJ2008PTC054035	V FORE EXPORTS PRIVATE LIMITED
65	U26942GJ2001PTC039924	TOPAZ CEMENT PRIVATE LIMITED
66	U72100GJ2008PTC055481	ASMI INFOTECH PRIVATE LIMITED
67	U29120GJ2001PTC039542	GARIMA ENGINEERS PRIVATE LIMITED
68	U24233GJ2011PTC064535	SILCOMB CATALYST PRIVATE LIMITED
69	U74900GJ2010PTC059707	D.J.PAPAYYA ENGINEERING CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
70	U50101GJ1996PTC029097	CHAROLA EXPORTS PRIVATE LIMITED
71	U36999GJ2003PTC043388	S K BEAUTY AND LASER EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
72	U29299GJ2008PTC054882	GREEN BASTI ECOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
73	U50404GJ2010PTC060016	RHINO RIDERS PRIVATE LIMITED
74	U31402GJ2012PTC071216	DEVASHISH ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
75	U74140GJ2008PTC054087	FINANCEEDGE CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
76	U67120GJ2008PTC054033	AAKANKSHA BRASS PRIVATE LIMITED
77	U45201GJ2009PTC057116	SHREE P J BUILDCON PRIVATE LIMITED
78	U72200GJ2005PTC045822	DOLCERA INFOMAXX PRIVATE LIMITED
79	U50300GJ2006PTC049366	ALLIED CAPITAL EQUIPMENT AND INFRASTRUCTURE PVT LTD
80	U51909GJ2001PTC039985	HORIZON TRADELINK PRIVATE LIMITED
81	U52390GJ2013PTC073387	SHAPAT INFOSERVICES PRIVATE LIMITED
82	U29254GJ2008PTC052989	ROCKMAN CONVEYORS PRIVATE LIMITED
83	U21010GJ1995PTC027518	SHREE RIDDHI SIDDHI PAPER AND BOARD PRIVATE LIMITED
84	U63090GJ2012PTC068899	TRIBENI EXPRESS PRIVATE LIMITED
85	U45200GJ2011PTC064379	TAPTI INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
86	U29268GJ2006PTC048664	YUKITEK IMPEX PRIVATE LIMITED
87	U63040GJ2010PTC063167	RNC HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
88	U64204GJ2012PTC068637	BINA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED

1	2	3
89	U29100GJ2011PTC067529	SHREYA EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
90	U72200GJ2004PTC043423	KLADOS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
91	U24219GJ2008PTC055337	SHREEJI AGROTECH PRIVATE LIMITED
92	U74140GJ2013PTC074216	MITVA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
93	U27104GJ2002PTC040814	MADHURAM WIRES PRIVATE LIMITED
94	U28112GJ2001PTC040162	GAURAV ROLLERS PRIVATE LIMITED
95	U28910GJ2012PTC069082	RAJNIL FORGINGS PRIVATE LIMITED
96	U72200GJ2004PTC044241	BUSIPRO INFOTECH PRIVATE LIMITED
97	U92190GJ2008PTC055576	MERIDHUN ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
98	U17120GJ2013PTC076584	IDEAL SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
99	U25200GJ2013PTC073561	SVAR TECHNOPLAST PRIVATE LIMITED
100	U74950GJ1978PTC003145	SUVARNA PACKAGING PVT LTD
101	U28910GJ2006PTC048544	AIRINTEC ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
102	U01211GJ2012PLC071023	JEEVAN SATHI CATTLE AND AGRO DEVELOPMENT INDIA LIMITED
103	U67120GJ2009PTC055865	SUNSHINE INVESTORS SERVICES PRIVATE LIMITED
104	U67120GJ2008PTC054157	SAMPANNA FINVEST PRIVATE LIMITED
105	U63090GJ2011PTC064285	MOONRISE SHIPPING PRIVATE LIMITED
106	U67120GJ2008PTC054159	TARAL FINVEST PRIVATE LIMITED
107	U67120GJ2008PTC054156	NETRA INVESTORS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
108	U45201GJ2008PTC054185	APOLLO MEGA ORGANISERS PRIVATE LIMITED
109	U72200GJ1999PTC035710	GURJAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
110	U25202DN1997PTC000122	SAIYED PACKAGING PRIVATE LIMITED
111	U72200GJ2007PTC050573	MAGIC INFOCOM PRIVATE LIMITED
112	U24100GJ2008PTC055692	SATTVAH ORGANICS PRIVATE LIMITED
113	U24230GJ2010PTC061496	SL PHARMA PRIVATE LIMITED
114	U55100GJ1989PLC012422	SHEEBA HOTELS LTD
115	U74140GJ2004PTC044445	MICROMANN BACK OFFICE SERVICES PRIVATE LIMITED
116	U67200GJ2009PLC057371	NAVKAR INSURANCE BROKERS LIMITED
117	U52100GJ2008PTC053002	GEET MARKETING PRIVATE LIMITED
118	U15490GJ2012PTC070180	MUM MUM FOODS PRIVATE LIMITED
119	U67120GJ1996PTC029932	A P SHAH AUTO FINANCE PRIVATE LIMITED
120	U92412GJ2013PTC073384	RAJKOT RECREATION CLUB PRIVATE LIMITED
121	U01122GJ2010PTC063287	KRUSHI VIKAS AGRO PROCESSORS PRIVATE LIMITED
122	U45201GJ2004PTC044153	TASHA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
123	U14101GJ1992PTC018675	MONALISA MARBLES PVT LTD
124	U45201GJ2007PTC050514	SHAILI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
125	U35117GJ2011PTC065685	AKSHI SHIP BREAKING PRIVATE LIMITED
126	U63040GJ2009PTC055808	CINDERELLA TRAVELS PRIVATE LIMITED
127	U22100GJ2011PTC064955	RAINBOW LAW PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED

1	2	3
128	U15544GJ1947PTC000268	SURAT ICE CO PVT LTD
129	U45201GJ1980PTC003932	NILINITI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
130	U72900GJ2011PTC065783	I CUBE INFOSERVICES PRIVATE LIMITED
131	U73100GJ1990PTC013500	FAIRDEAL MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD.
132	U17191GJ1996PTC031370	ZANKAR FABRICS PRIVATE LIMITED
133	U28910GJ2008PTC052857	SLS METAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
134	U72900GJ2010PTC060266	PIGEON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
135	U52100GJ2008PTC052578	ADROIT EXIM PRIVATE LIMITED
136	U17115GJ2011PTC065571	BAJRANG COTSPIN PRIVATE LIMITED
137	U17120GJ2013PTC074598	VISHNUJI SPINNING MILL PRIVATE LIMITED
138	U67120GJ2008PTC052945	ADROIT FINCON PRIVATE LIMITED
139	U74140GJ2010PTC061831	CREATRIX PROPERTIES PRIVATE LIMITED
140	U45201GJ2008PLC054619	AVENTURE INFRABUILD LIMITED
141	U45201GJ2008PLC054654	AVENTURE WORLDPARK LIMITED
142	U45201GJ2008PLC054413	AVENTURE MULTI PARK LIMITED
143	U72200GJ2012PTC069299	LEFTKLIK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
144	U65910GJ2011PTC064423	SMOOTH FINSERVE PRIVATE LIMITED
145	U52100GJ2010PTC061438	NOVELTY EXPORT & IMPORT PRIVATE LIMITED
146	U67120GJ2010PTC059850	VENUS WEALTH CREATORS PRIVATE LIMITED
147	U67120GJ2011PTC064794	ZION SHARES & STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED
148	U72200GJ2011PTC064287	ZION INFO-COM PRIVATE LIMITED
149	U30009GJ1998PLC034163	RIA TECHNOLOGIES LIMITED
150	U01403GJ2011PTC065301	IMPROBUS AGRI SOLUTION PRIVATE LIMITED
151	U17297GJ1985PTC007924	AMALCO POLYFIBRES PVT LTD
152	U17297GJ1985PTC007925	PRIYANKA FIBRES AND FILAMENTS PVT LTD
153	U23209GJ1988PLC011468	LUBES SPECIALITIES LIMITED
154	U18109GJ2009PTC056719	SHIANGA SOIREES PRIVATE LIMITED
155	U27100GJ2014PTC078735	DEVANSH MULTI METALS PRIVATE LIMITED
156	U74140GJ2012PTC071701	FABER THREE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
157	U51909GJ2013PTC076987	PEARL CANVAS COMPANY PRIVATE LIMITED
158	U17120GJ2011PTC065913	SOHAM INNOVATIVE TEXTFAB PRIVATE LIMITED
159	U17120GJ2011PTC066073	SEYARA ACME WEAVERS PRIVATE LIMITED
160	U72900GJ2012PTC069819	FUTURA IT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
161	U40100GJ2008PTC054798	AARCEL GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED
162	U40100GJ2010PTC062264	SYSSOL POWER PRIVATE LIMITED
163	U74140GJ2003PTC043030	DOMAIN CONSULTANCY PRIVATE LIMITED

1	2	3
164	U80903GJ2010PTC063009	EVENINGCHAI CAREER SERVICES PRIVATE LIMITED
165	U72200GJ2009PTC057875	SAPTARANG SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
166	U70100GJ2009PTC056050	SHAH AND SONS PROPON PRIVATE LIMITED
167	U52100GJ2009PTC055876	SHAH REALCOM PRIVATE LIMITED
168	U67120GJ2008PTC054086	CORPORATE STOCK BROKING PRIVATE LIMITED
169	U45500GJ2008PTC054286	CORPORATE SPACE MANAGERS PRIVATE LIMITED
170	U52300GJ2009PTC056082	SHAH TRADEWING GUJARAT PRIVATE LIMITED
171	U70100GJ2009PTC055936	SHAH SPACE MANAGER PRIVATE LIMITED
172	U15310GJ2013PTC073589	JKH FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
173	U52512GJ2012PTC071574	SWEET DREAMS INDUSTRY PRIVATE LIMITED
174	U36912GJ2010PTC060900	YUG DIAMONDS PRIVATE LIMITED
175	U34100GJ2010PTC059590	VIR AUTO WHEELS PRIVATE LIMITED
176	U70101GJ2012PTC070460	BHAVNA REALITIES PRIVATE LIMITED
177	U63020GJ2012PTC069652	MANSI AGRICULTURE AND FOOD PROCESSING PRIVATE LIMITED
178	U17120GJ2012PTC071079	MONU TEXTFAB PRIVATE LIMITED
179	U24231GJ1989PTC013185	NIRAV LABORATORIES PVT LTD
180	U17119GJ1985PTC008085	GEESYNTH TEXTILES PVT LTD
181	U72200GJ2013PTC076159	DALAL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
182	U65910GJ1995PTC026994	KRUTI REALTIES AND TRADING PRIVATE LIMITED
183	U17121GJ2006PTC049375	OM COTTON PRIVATE LIMITED
184	U01403GJ2013PTC074329	JAISHEEL AGROTECH PRIVATE LIMITED
185	U24100GJ2011PTC063983	GURU REMEDIES PRIVATE LIMITED
186	U51494GJ2004PTC044292	KVANMALI TRADING PRIVATE LIMITED
187	U74120GJ2008PTC053696	ZENIFO TAX AND ACCOUNTING SERVICES PRIVATE LIMITED
188	U35117GJ2011PTC064827	BHAJAN SHIP RECYCLING PRIVATE LIMITED
189	U51909GJ1980PTC003708	MALKAUNS TRADING PVT LTD
190	U52300GJ2011PTC064800	SARATHI RETAILS PRIVATE LIMITED
191	U70102GJ2009PTC055982	JVJ INFRASTRUCTURE & SERVICES PRIVATE LIMITED
192	U35117GJ1995PTC026527	RADHE FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED
193	U70101GJ2007PTC052068	ARS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
194	U52393GJ2009PTC057965	RASHMIN EXIM PRIVATE LIMITED
195	U67120GJ2009PTC057962	DELTA WEALTH MANAGERS PRIVATE LIMITED
196	U45201GJ2010PTC059448	MASCOT DREDGING PRIVATE LIMITED

V.S.HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Coimbatore – 641005, the 30th July 2014

No. ROC/CBE/ /560(5) 2014 – Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said Companies are dissolved:-

Sl.No	Regn.No.	Name of the Companies
1	4308	M/s. Kavi Kumar Spinning Mills Private Limited
2	8432	M/s Sree Pathy Diamond Tools Private Limited
3	9255	M/s. CSX Securities Limited
4	10476	M/s. SSBB Enterprises India Private Limited
5	10603	M/s. Data Park Integrated Business Solutions India Private Limited
6	14042	M/s. Swanish Jewels Private Limited
7	14244	M/s. Abner Capital Services Private Limited
8	14721	M/s. Rajshree Bio Tech Private Limited
9	14976	M/s. Spright Financial Solutions Private Limited
10	15535	M/s. Nivi Fashions India Private Limited
11	15707	M/s. Keshiba Food Products Private Limited
12	16303	M/s. Tara Diamond Jewellery Private Limited
13	16663	M/s. M.L. Gears Private Limited
14	9918	M/s. Tve Shipping Lines India Private Limited
15	10263	M/s. Mhackmans Constructions Private Limited
16	10738	M/s. Manonmani Agricultural Farm Private Limited
17	11974	M/s. EM AR EMM Ads Coimbatore Private Limited
18	11141	M/s. Priara Enterprises Limited
19	12569	M/s. Carcerano Pricoltech (India) Private Limited
20	12829	M/s. Techarchs Information Systems India Private Limited
21	13333	M/s. Ratna Sri Anandhass Chits Private Limited
22	14192	M/s. CPL Chit Funds (Kovai) Private Limited
23	14376	M/s. R P Financial Services India Private Limited
24	15487	M/s. Canon Clothslne Services Private Limited
25	647	M/s. Shanmuga Steel Industries Limited
26	3066	M/s. Amman Granite Products Private Limited
27	8319	M/s. Sri AnjaneyaAnugraha Agro Products Private Limited
28	12032	M/s. Akshara Papers Private Limited
29	13790	M/s. Accudocs Software Technologies Private Limited
30	14173	M/s. Asir Software Solutions Private Limited
31	15211	M/s. Just Phone Information Service Private Limited
32	16909	M/s. Murugappa Ventures Private Limited

V.P. SIVADASAN
Registrar of Companies (In Charge)
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Hyderabad, the 18th February 2014

No. RAP/SES-2005/Sec.560(3)/01-5740/VVR/February, 2009—Notice is hereby given that the following companies have applied to this office for striking off their names under SES-2005 (Simplified Exit Scheme) Dated 28-01-2005 of Government of India Ministry of Corporate Affairs, Notice is hereby given that after the expiry of 90 days from the date hereof, unless cause is shown to the contrary, will be struck off as a defunct companies from the Register of this office and they will be dissolved:-

Sl. No.	CIN	Name of the Company
01	U99999AP1985PTC005740	SOUTHERN FIBRES PRIVATE LIMITED
02	U65992AP1993PLC015456	GORA CHITS AND FINANCE LIMITED

Any person interested having objection to the proposed striking off of the above mentioned companies may lodge his/their objections in writing within 3months from the date of this notice with sufficient documentary proof to the undersigned, failing which the names of the above companies will be struck off as aforesaid without any further notice.

VENKATA RAMI REDDY VANGA
Assistant Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the LLP Act, 2008 and of
M/s. DELPERFEX GLOBAL SERVICES LLP

Ernakulam-682021, the 25th July 2014

No. LLPIN AAB-0650/2334—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the name of DELPERFEX GLOBAL SERVICES LLP has this day been struck off the Register and the said LLP is dissolved.

V E JOSEKUTTY
Deputy Registrar
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of the following companies

Kochi- 682 021, the 16th July 2014

No. Notice u/s. 560(5)/FTE-2014—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved:-

Sl.No.	Co.Reg.No.	Company Name
1	2	3
1	U74994KL2007PTC021332	KCA Interior Designers Private Limited
2	U52335KL2011PTC027615	JANAKEYAM SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3	U65910KL1995PTC009604	RAMCHAND FINANCIAL SERVICES AND MERCHANT BANKING PVT LTD
4	U80301KL2011PTC027961	VIRTUS EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
5	U70100KL2012PTC030757	JVTC REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
6	U51900KL2011PTC027434	WINHAR EXPORTERS PRIVATE LIMITED
7	U45200KL2008PTC022986	ARTISAN BUILDERS CONTRACTORS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
8	U93010KL2012PTC032262	SAMPOORNA HOME SERVICE PRIVATE LIMITED
9	U74140KL2010PTC025814	PETROTECH TRAINERS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

1	2	3
10	U55101KL2007PTC020681	YESPEESONS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
11	U45200KL2008PTC023305	DE VALOR BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
12	U15400KL2013PTC034589	YOGONATION FOODS PRIVATE LIMITED
13	U51909KL2006PTC019578	JEZIEL EXIM PRIVATE LIMITED
14	U63012KL2009PTC024305	MASSTRANS SHIPPING & TRANSPORT INDIA PRIVATE LIMITED

K.G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 2013 and of
M/s. COCHIN ALLIANCE BANK LIMITED

Ernakulam-682021, the 25th July 2014

No. U65110KL1927PLC000177/2335—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 2013, that the name of COCHIN ALLIANCE BANK LIMITED limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

K G JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in